

प्रकाशित: 22.04.2022

हमारी पृथ्वी के संरक्षण हेतु अपने अभिनव सुझाव दें

नियम और शर्तें

1. माईगव नीतियों के अनुसार प्रतिभागियों की कोई उम्र सीमा नहीं है। सभी उम्र के लोग प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
2. विजेता बनने के बाद प्रतियोगियों से पहचान प्रमाण मांगा जाएगा।
3. प्रतिभागी हमारा कर्मचारी, अधिकारी, एजेंट या प्रतियोगिता के आयोजकों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन का कर्मचारी नहीं होना चाहिए और आपका ऐसे किसी भी व्यक्ति से पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए।
4. प्रति व्यक्ति प्रतियोगिता में प्रविष्टि भेजने की अधिकतम संख्या एक है।
5. प्रतियोगिता के आरम्भ होने से पहले या समापन के बाद प्राप्त कोई भी प्रविष्टि अमान्य होगी एवं प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं किया जाएगा।
6. किसी भी कारण से प्राप्त न हुई प्रविष्टियों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं होगी।
7. अप्रत्याशित परिस्थितियों में आयोजक किसी भी समय गतिविधि में संशोधन करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। संदेह से बचने के लिए इन नियमों और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार शामिल है। इसके बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए प्रतिभागी पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं।
8. प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा।
9. यदि कोई प्रतिभागी प्रतियोगिता की जरूरतों को पूरा नहीं करता है या किसी भी प्रवेश प्रतिबंध के अधीन है, तो वह प्रतिभागी विजेता घोषित होने का हकदार नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में पुरस्कार का हकदार नहीं होगा।
10. प्रतियोगिता से संबंधित सभी मामलों के संबंध में एमओईएस का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
11. प्रतियोगिता के पुरस्कार, प्रतियोगिता समाप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर विजेताओं को ईमेल द्वारा प्रतियोगिता के परिणाम की सूचना दे दी जाएगी (यदि पता मांगा/प्रदान किया गया है) या सोशल



my
GOV
मेरी सरकार

“ Let us join this mass movement towards Surajya, realise the hopes and aspirations of the people and take India to greater heights! ”

मीडिया पर सीधे संदेश द्वारा (विजेताओं को पुरस्कारों के बारे में संपर्क करने के लिए हमारे सोशल मीडिया एकाउंट को 'लाइक' या 'फॉलो' करना अनिवार्य होगा) दे दी जाएगी।

12. 14 दिनों के लिए पुरस्कार विजेता से संपर्क करने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे, अगर विजेता इस समय के भीतर हमारे अधिसूचना प्रयासों का जवाब देने में विफल रहें या पुरस्कार वितरण के लिए एक पता प्रदान करता है या पात्रता आवश्यकताओं में से किसी को पूरा करने में विफल या असमर्थ रहते हैं,

तो प्रतियोगिता के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए MoES उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित करने और अगले योग्य प्रतिभागी /विजेता को पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. विजेता का निर्णय करने में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा।